



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शके 1941-सितम्बर 16, 2019
Bhadra 25, Monday, Saka 1941-September 16, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 09, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/9542 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Ratangarh has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Ratangarh. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

By Order,

Ujjwal Rathore,

Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगरपालिका मण्डल रतनगढ़, चूरू (राज०)

प्रपत्र - क

क्र.संख्या	वार्ड संख्या	वार्डों के सीमांकन का विवरण
01	01	हुडेरा फाटां से 440 ग्रिड स्टेशन को छोड़ते हुए पालिका सीमा को सम्मिलित करते हुए पश्चिम में चम्पावासी सड़क तक पालिका सीमा को सम्मिलित करते हुए पूर्व में कचरा संग्रहण भूमि को शामिल करते हुए पूर्व दक्षिण में चलकर 220 के.वी., बीका शमशान भूमि को अन्दर लेकर राजकिय प्राथमिक विद्यालय को दायीं ओर छोड़कर जाफर गौरी को अन्दर लेते हुए पूर्व में चलकर पूर्ण जी चावला के मकान को शामिल करते हुए उत्तर में मुड़कर उस्मानिया मस्जिद को अन्दर लेकर पूर्व में मुड़कर मेघवाल शमशान को अन्दर लेते हुए मो० युसुफ गौरी, राम कुमार मेघवाल को अन्दर लेकर उत्तर में मुड़कर पडिहार चैक को दांये ओर छोड़ते हुवे, मदन सैनी के मकान को शामिल करते हुए पुल्लाराम रेगर के मकान को शामिल करते हुए उत्तर में चलकर हुडेरा रोड़ पर चलते हुए हुडेरा फांटा तक।
02	02	किशनलाल खटीक के घर से पश्चिम में चलकर उसमानिया धर्मशाला,

		<p>रफीक खोखर, राजकिय प्राथमिक विधालय को शामिल करते हुए बीका शमशान को दांये ओर छोड़ते हुए मेघा हाईवे के उत्तर में चलकर नगरपालिका कचरा संग्रहण स्थल को दायीं ओर छोड़कर दक्षिण में नगरपालिका सीमा के सहारे सहारे चलते हुए बीकानेर रेल्वे लाईन को दांयी ओर छोड़ते हुए रीको इन्डस्ट्रीयल एरिया को शामिल करते हुए पूर्व में चल कर बाम्बे दरबार हाटल को दायी ओर छोड़ते हुए पूर्व में चलकर चमड़िया की ढाणी को छोड़कर सीधे पूर्व में चलकर हुडेरा रेल्वे स्टेशन को शामिल करते हुए पूर्व में चल कर पी.डब्लू.डी., 132 के.वी.ए. जी.एस.एस. को शामिल करते हुए पूर्व में युसुफ मोटारा को शामिल करते हुए अकबर हुसेन के घर को शामिल कर उत्तर में मुड़कर अब्दुल गफ्फार के मकान को शामिल कर पश्चिम में मुड़कर बहलीम बन्धु का मकान, मो. हारून खत्री को शामिल करते हुए रघुवीर सिंधी को शामिल उत्तर पूर्व में चलते हुए छोटू सिंह को दांये ओर छोड़ते हुए, गोगा मेड़ी को शामिल करते हुए पुनमचन्द बारी को शामिल करते हुए उत्तर में मुड़कर जाकीर बिसायती को दांये ओर छोड़ते हुए पूर्व में मुड़कर अनवर ईलाड़ी को शामिल करते हुए उतर में मुड़कर हनिफ खत्री के बाड़े को शामिल करते हुए इरफान के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम में मुड़कर किशनलाल खटीक घर तक।</p>
03	03	<p>गुरु कृपा धर्म कांटे से पश्चिम में चलकर आई.टी.आई. को सम्मिलित करते हुए बाम्बे दरबार को अन्दर कर पालिका सीमा तक पालिका सीमा के सहारे सहारे दक्षिण में चलते हुए एन.एच 11 तक पूर्व में चलकर संगम चैराहे आकर वहां से उतर में मुड़कर सरदारशहर सड़क टी पाइन्ट हाई मास्ट से पूर्व चलकर आगे लिंक रोड पर आकर पंचमुखी बालाजी, इण्डेन गैस गौदाम को अन्दर लेते हुए उत्तर में मुड़कर पुलिस थाना को अन्दर लेते हुए पूर्व में मुड़कर हरितवाल कृषि फार्म को दायें छोड़ते हुए उत्तर चलकर कडेल कुएं को अन्दर लेकर पूर्व चलकर आगे चुन्नीलाल धोबी व ट्रांसफार्मर को दांये छोड़ते हुए उत्तर मुड़कर रमा देवी शिवालय को अन्दर लेते हुए सदभावना स्कूल, अमृत टेन्ट हाउस को शामिल करते हुए रतनगढ़ वेस्ट फाटक के पास गुरु कृपा धर्म कांटे तक।</p>
04	04	<p>शिवाजी सेवा संस्थान के पास वाले उत्तर साईड के नोहरे से पश्चिम में लिंक रोड पर चलते हुए मनोहर दास जी की समाधी, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक तथा एसार पेट्रोल पम्प को सम्मिलित करते हुए मेगा हाईवे तक तथा दक्षिण में चलकर संगम चैराहे को अन्दर लेकर बीकानेर हाईवे पर पालिका सीमा</p>

		तक वहां से पालिका सीमा के सहारे सहारे दक्षिण व पूर्व की तरफ चलकर जोधपूर रेल्वे लाईन पर चढ़कर उत्तर में लाईन रेल्वे ओवर ब्रिज को सम्मिलित करते हुए कुर्जा होटल को सम्मिलित कर जयश्री होटल, प्रजापति व चौधरी शमशान को अन्दर लेकर चौधरी कुए को दाहिना छोड़ते हुए मुरलीधर के घर को अन्दर लेते हुए सुर्यप्रकाश शास्त्री के मकान को दक्षिण छोड़ते हुए शिवाजी क्लब को अन्दर लेते हुए (कानजी स्मृति) शिवाजी सेवा संस्थान तक
05	05	चुन्नीलाल धोबी के मकान से पश्चिम में चलकर बाबूलाल सोनी के मकान से आगे चलते हुए को दाहिना छोड़ते हुए हरितवाल कृषि फार्म को अन्दर लेते हुए पश्चिम में मुड़कर पुलिस थाना को दाहिना छोड़ते हुए दक्षिण में मुड़कर लिंक रोड़ पर मुड़कर पूर्व में मुड़कर जय आदित्य आटोमोबाइल, जस्करण माली की बाड़ी, कान जी गेस्ट हाउस, मारोठिया फर्नीचर को अन्दर लेते हुए रतनलाल जोशी के मकान को अन्दर लेते हुए उत्तर में क्रोस कर मनोहर जी शर्मा के मकान को शामिल कर पूर्व में चलकर शंकर जी अध्यापक के मकान को दांये ओर छोड़कर उत्तर में मुड़कर मनोज पारीक के मकान को शामिल करते हुए उत्तर चलकर हरिप्रसाद पारीक के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम में मुड़कर जोशी कुए को शामिल कर पश्चिम में चलते हुए आमीन चैजारा के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम में चलकर जगदीश पंवार के मकान को शामिल करते हुए शुभकरण पंवार की दुकान को दांयी ओर छोड़ते हुए उतर में मुड़कर रेल्वे लाईन के सहारे सहारे ट्रांसफार्मर के पश्चिम से चुन्नीलाल धोबी तक।
06	06	श्यामलाल माली के मकान से दक्षिण मुड़कर भगवानी देवी भुवालका बालिका विद्यालय को दांये ओर छोड़कर कमल नोहाल को शामिल करते हुए दक्षिण में चलकर परमेश्वर लाल शर्मा को शामिल करते हुए पश्चिम में चलकर रूकमानन्द लुहार को शामिल करते हुए दक्षिण में मुड़कर शुभकरण पंवार के मकान को शामिल करते हुए पूर्व में चलकर युनुस चैजारा, साबीर अली नजमी के मकान व हबीब चैजारा के मकान को शामिल करके उत्तर में मुड़कर समसुदीन चैजारा, मुगल चैजारा, रूस्तम चैजारा को शामिल करते हुए पश्चिम में चलकर झाबरमल चैजारा के मकान को दांयी ओर छोड़कर उत्तर में मुड़कर सदीक चैजारा के मकान को शामिल करके पूर्व में मुड़कर नोरतमल जी नाई को शामिल करते हुए सुरेश सोनी को शामिल करते हुए उत्तर में मुड़कर पवन जी सोनी को शामिल करते हुए पूर्व में मुड़कर हवेली

		को शामिल कर उत्तर में मुड़कर दास बालाजी को दांये ओर छोड़ते हुवे जांगीड़ कारखाने से पश्चिम मुड़कर भुवालका कोठी होते हुए श्याम लाल माली तक।
07	07	शंकर जी मिस्त्री के कारखाने से पश्चिम चलकर धोबियों की मस्जिद होते हुए झंवरों के मन्दिर को सम्मिलित करते हुए सीधे पश्चिम चलकर आगे रतनगढ़ वेस्ट रेल्वे फाटक को दाहिना छोड़ते हुए दक्षिण में मुड़कर रेल्वे फाटक को दाहिना छोड़ते हुए आगे मामचन्द खाती से पूर्व में मुड़कर आगे चलकर द्वारका प्रसाद खाती से उतर मुड़कर गिरधारी लाल चोटिया, भगवानी देवी भुवालका बालिका विद्यालय से सड़क पर आकर श्यामलाल माली को दायीं ओर छोड़ते हुए पूर्व की ओर मुड़कर राधाकृष्ण मन्दिर को शामिल कर वापिस शंकर मिस्त्री के कारखाने तक।
08	08	रूस्तम चेजारा के घर से पश्चिम में साबीर शेख को अन्दर लेते हुए जाकिर बिसायती को शामिल कर दक्षिण मुड़कर मोहम्मद दाउद खोखर को शामिल करते हुए पश्चिम में मुड़कर पुनम चन्द भारी को दांये ओर छोड़ते हुए छोटू सिंह बीका को शामिल करते हुए पश्चिम दक्षिण में चलकर नारायण प्रसाद प्रजापत को शामिल करते हुए दक्षिण में मुड़कर पूर्व में चलते हुए रफिक के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण में मुड़कर अब्दूल गप्फार को शामिल कर आर.एस.ई.बी. रोड पर आकर पूर्व में चलकर बरकत हाजी के मकान को शामिल करते हुए थर्ड टंकी को अन्दर लेते हुए चेजारा मस्जिद को दाईं ओर छोड़ते हुए उत्तर में चलकर शंकर किराणा स्टोर को शामिल कर तोलाराम देवचन्द दुगड़ के मकान को शामिल कर पश्चिम मुड़कर नोरतमल चोटिया को दाईं ओर छोड़कर पश्चिम में कोचर भवन को शामिल करते हुए उत्तर में मुड़कर बाजोरिया के मकान को शामिल करते हुए निजामुदीन शेख के मकान को दाहिनी ओर छोड़ते हुए शकुर दमामी के मकान को दायें छोड़ते हुए उत्तर पश्चिम में चलकर रूस्तम चेजारा के घर तक।
09	09	आमीन के घर से दक्षिण पूर्व में चलकर माताजी मन्दिर को अन्दर लेते हुए गैनाणी सैम्पवेल को शामिल करते हुए सोमाराम माली की बाड़ी को शामिल कर पूर्व में मुड़कर युसुफ खत्री से उत्तर पूर्व मुड़कर अली अब्बास काजी को शामिल करते हुए पूर्व में चलकर हाजन जेनब के मकान को शामिल करते हुए मरकज मस्जिद को दांयी ओर छोड़ कर उत्तर में मुड़कर रफिक मण्डेलिया के घर को शामिल कर ईदगाह को शामिल करते हुए पश्चिम में मुड़कर ईदगाह मदरसे को शामिल कर अक्सा मस्जिद को दांयी ओर छोड़

		कर हुसैन सैयद को शामिल करते हुए उत्तर में मुड़कर सुखाराम मेघवाल को शामिल करते हुए पश्चिम में मुड़कर रामदेव जी मन्दिर को शामिल कर असगर गौरी को शामिल कर मेघवाल शमशान को दायी ओर छोड़कर आमीन के घर तक।
10	10	इब्राहिम गौरी, जमाल गौरी के घर से दक्षिण में चलकर पड़िहारा चैक होते हुए मो० अयुब काजी के मकान को शामिल करते हुए परमाराम जसैल के घर से पूर्व में चलकर अक्शा मस्जिद को अन्दर लेते हुए मदरसे को दाहिना छोड़ते हुए सीधे पूर्व में गिरधारी पुत्र नोपाराम खटीक के मकान को शामिल करते हुए सीधे पूर्व में चलकर रामेश्वर लाल पुत्र मंगलाराम खटीक के मकान को शामिल करते हुए उत्तर में मुड़कर नोरतमल सुरजमल खटीक के घर से पश्चिम में खटीक धर्मशाला व खटीक गेस्ट हाउस को अन्दर लेते हुए उत्तर में चलकर बुधमल जी सामरीया, मनोज रेगर, धर्मचन्द जागरत के मकान को अन्दर लेकर पश्चिम में मुड़कर शिव शंकर गाडगिल के मकान को दांये ओर छोड़ते हुए काली माता मंदिर को शामिल करते हुए उत्तर पश्चिम में मुड़कर राकेश रेगर के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम में मुड़कर इब्राहिम गौरी के घर तक।
11	11	आनन्दलाल महर्षि से पश्चिम में चलकर राजेश सारस्वत, चुन्नीलाल रेगर को अन्दर लेकर दक्षिण में मुड़कर प्रकाश पाठशाला को दांये ओर छोड़कर पश्चिम से दक्षिण मुड़कर दीपाराम रेगर बालूराम रेगर से होते हुए सीताराम वकील से पूर्व मुड़कर माताजी मन्दिर को अन्दर लेकर पूर्व में चलकर सांवरमल खटीक को शामिल कर उत्तर की तरफ तनाराम खटीक के मकान को लेकर मोचियों के कुएं को दांयी ओर छोड़ते हुए दुलसिंह बीदावत को अन्दर लेकर दक्षिण की तरफ सड़क-सड़क हनुमान व्यायाम शाला होते हुए पूर्व में रामचन्द्र पार्क को शामिल कर उतर में मुड़कर आनन्दलाल महर्षि तक।
12	12	सराफों की छतरी से उत्तर पश्चिम में मुड़कर मोचियों के कुओ का शामिल करते हुए दक्षिण में मुड़कर भोलागर धर्मशाला को शामिल करते हुए पश्चिम में चलकर दौलतराम खटिक के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम में चलकर ईदगाह बाड़ी को शामिल करते हुए दक्षिण में मुड़कर गन्दे नाले को पार करते हुए मण्डेलिया हाउस को दाहिनी ओर छोड़ते हुए मरकज मस्जिद को शामिल कर पश्चिम में चलकर मानजी की आटा चक्की को शामिल करते हुए दक्षिण में चलकर शकुर दमामी के मकान को शामिल

		<p>कर पूर्व में चलकर सुलतान आचलिया हवेली, निजामुद्दीन शेख के मकान को शामिल कर दक्षिण में चलकर बाजोरिया के मकान को दाईं ओर छोड़ते हुए पूर्व में चलकर नोरतमल चोटिया, बी.आर.के.जी.बी. बैंक को शामिल करके पूर्व में चलते हुए बैंक आफ बड़ौदा को दायीं ओर छोड़कर उत्तर में मुड़कर श्री कुंज अपार्टमेंट, ओसवाल पंचायती भवन को शामिल कर भैरू जी मन्दिर को अन्दर लेते हुए पूर्व में मुड़कर पौददार गैस्ट हाउस नोहरे को शामिल करते हुए पुरानी एल.आई.सी. ऑफिस को शामिल कर उत्तर में चलकर एस.बी.आई. बैंक के आगे से चलकर साराफों की छतरी तक।</p>
13	13	<p>होम्योपैथिक से पश्चिमी चलते हुए दक्षिण में मुड़कर ओसवाल पंचायत समिति को दांयी ओर छोड़ते हुए श्री कुंज अपार्टमेंट को दाईं ओर छोड़ते हुए पश्चिम दक्षिण मुड़कर पूनम ज्वैलर्स को शामिल कर पश्चिम में मुड़कर बैंक आफ बड़ौदा को शामिल करते हुए पश्चिम में चलकर भीकमचन्द, बी.आर.के.जी.बी बैंक को दांयी ओर छोड़ते हुए दक्षिण में मुड़कर भीकमचन्द दुगड़ के मकान को अन्दर लेकर चैजारों की मस्जिद से पूर्व में मुड़कर चुंगी नाका 3 से हनुमान औषधालय को अन्दर लेकर दक्षिण चलकर कन्दोइयों के मकान अकरम अली, बहादुर नाई को अन्दर लेते हुए दक्षिण में चलकर मूल जी सोनी, दयाराम सोनी से पश्चिम में मुड़कर अजमल चैजारा के मकान को अन्दर लेते हुए दक्षिण मुड़कर कुंज बिहारी सिंवाल के मकान को अन्दर लेकर पूर्व दक्षिण में मुड़कर मांगीलाल कुम्हार को अन्दर लेकर दक्षिण में चलकर मुकेश सोनी को अन्दर लेते हुए पश्चिम में मुड़कर तापड़िया संस्कृत पाठशाला को अन्दर लेकर मावलिया मन्दिर को अन्दर लेकर दक्षिण में मुड़कर महावीर जी शर्मा के मकान को दांयी ओर छोड़ते हुए महेश कत्थक से पूर्व में चलकर किसान भवन को अन्दर लेते हुए मोती जी सोनी की दुकान को शामिल कर उत्तर में मुड़कर अशोक स्तम्भ को दांयी ओर छोड़ते हुए सीधे चलकर घन्टाघर को दांये छोड़ते हुए होम्योपैथिक तक।</p>
14	14	<p>सेठ नागरमल बाजोरिया स्कूल से दक्षिण में चलकर नीम से पश्चिम में चलकर ओम जी सोनी को शामिल करते हुए दक्षिण में मुड़कर पवन सोनी को दायीं ओर छोड़ते हुए सुरेश सोनी को दायीं ओर छोड़कर पश्चिम में मुड़कर गणेश बैकरी को शामिल कर नोरतन नाई को दांये ओर छोड़ते हुए दक्षिण में मुड़कर झाबरमल चेजारा को शामिल करते हुए पूर्व मुड़कर कानीराम मालीराम महर्षि से होते हुए सुनारों की धर्मशाला को अन्दर लेते हुए उत्तर में मुड़कर अजमल चेजारा के मकान को दायीं ओर छोड़ते हुए पूर्व</p>

		में मुड़कर सारीखा सोनी पत्नी स्व. श्री राजाराम के मकान को अन्दर लेकर पूर्व में चलते हुए रामोतार सोनी को शामिल करते हुए उत्तर में चलकर जाकिर चेजारा के मकान को अन्दर लेते हुए अकरम चेजारा के मकान को दायीं ओर छोड़ते हुए पश्चिम उत्तर चलकर सुरेका स्वर्णकार धर्मशाला को अन्दर लेकर पंसारियो के मन्दिर को अन्दर लेकर पश्चिम में मुड़कर सेठ नागरमल बाजोरिया तक।
15	15	गौतम पीपलवा के मकान से दक्षिण में चलकर भवरू चेजारा को अन्दर लेकर खालिद चेजारा के मकान को अन्दर लेकर पूर्व में चलते हुए जोशी कुआ व सराफों के मन्दिर को दायीं ओर छोड़ते हुए पवन कुमार दायमा को दायीं ओर छोड़कर दक्षिण में मुड़कर रघुवीर जी शर्मा को अन्दर लेकर मनोज पारीक को दायीं ओर छोड़ते हुए पश्चिम में मुड़कर महावीर जी मास्टर जी को अन्दर लेते हुए दक्षिण में मुड़कर रेल्वे लाईन से पूर्व में मुड़कर राजकुमार रिणवां के घर को शामिल करते हुए पुलिया नं० 04 से उत्तर में चलते हुए रिणवां भवन के शामिल कर पश्चिम उत्तर में मुड़कर श्याम जी नौहाल के मकान को शामिल कर पश्चिम में मुड़कर काशीराम के मकान को शामिल करते हुए महेश कत्थक को दायीं ओर छोड़कर उत्तर में चलते हुए महावीर प्रसाद शर्मा के मकान को शामिल कर पूर्व में मुड़कर गांधी बाल निकेतन व ओम जी मीणा को शामिल करते हुए उत्तर में चलते हुए रामोतार जी सोनी को शामिल करते हुए पश्चिम में मुड़कर केदार जी पीपलवा को शामिल करते हुए गौतम पीपलवा के मकान तक।
16	16	राहुल व्यास से पश्चिम में चलकर दक्षिण मुड़कर अशोक स्तम्भ, सुखदेव सोनी, भुवालका छतरी को अन्दर लेते हुए आगे तापडिया शिवालय से लिंक रोड़ पर पूर्व में चलकर गिरिश जी काछवाल के मकान को दांयी ओर छोड़कर दक्षिण में मुड़कर हास्पिटल परिसर को अन्दर लेते हुए पंचायत समिति रोड़ से पूर्व में मुड़कर कुल्थिया मेडिकल को शामिल करते हुए दक्षिण में मुड़कर पश्चिम में चलकर महावीर जी माली को दांयी ओर छोड़ते हुए दक्षिण में मुड़कर गणेश होटल को शामिल करते हुए माल गोदाम/प्लटफार्म को दांयी ओर छोड़ते हुए सरदारशहर रेल्वेलाईन के सहारे बी.एस.एन.एल., पोस्ट आफिस व नगरपालिका को अन्दर लेते हुए उत्तर में चलकर हनुमान मिस्त्री की आटा चक्की को अन्दर लेते हुए नवलगढिया धर्मशाला, उस्मान छिंपा, भैराराम कुम्हार को अन्दर लेकर पश्चिम में चलकर सम्पत धई को शामिल करते हुए पश्चिम चलकर आगे उत्तर मुड़कर हिराराम दायमा से

		वापस पश्चिम मुडकर राहुल व्यास के मकान तक।
17	17	गिरीश जी काछवाल के मकान से पश्चिम में चलकर गोगामेड़ी मन्दिर को सम्मिलित करते हुए दक्षिण में पुरोहितों के कुए, गोपाल इण्डस्ट्रिज कारखाने के आगे पश्चिम की तरफ सूर्य प्रकाश शास्त्री को सम्मिलित करते हुए दक्षिण में मुडकर गुरुजी रेस्टोरेन्ट के आगे से, चौधरी कुआं के आगे से दक्षिण में चलकर प्रजापति शमशान को दाहिना छोड़ते हुए ओवर ब्रिज को छोड़ते हुए पूर्व में चलकर रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे उत्तर में चलकर रेल्वे स्टेशन प्लेटफार्म को व माल गोदाम को अन्दर लेकर पश्चिम में गजराज होटल को शामिल करते हुए गणेश होटल को दायें छोड़ते हुए महावीर जी माली को शामिल करते हुए उतर में धर्मन्द्र भाटी, शक्तिदेव भारद्वाज, रमेश कुमावत व अमरदीन जी के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम में चलकर ट्रोमा सेन्टर को दाहिने छोड़कर हितेष मुदगल के मकान को शामिल करते हुए गंगाराम हास्पिटल को शामिल करते हुए गिरीश जी के मकान तक।
18	18	गुलाम रसूल मास्टर से पश्चिम में चलकर रेल्वे क्लब, रेल्वे हास्पिटल पहुंचकर दक्षिण में मुडकर रेल्वे क्वाटरों को अन्दर लेते हुए रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे चलते हुए सीधी लोहा फाटक पहुंचकर नगरपालिका सीमा को अन्दर लेकर पूर्व में मुडकर नगरपालिका सीमा चलते हुए उत्तर में साईं बाबा मन्दिर रोड़ पर सीधे चलते हुए परतुराम कटेवा के मकान को शामिल कर सीधे उत्तर की ओर चलकर पश्चिम उत्तर में मुडकर भरतिया ढाणी कुएं को दाहिने छोड़ते हुए तथा भरतिया स्कूल को शामिल कर उत्तर में चलकर गुलाम रसूल मास्टर के घर तक।
19	19	खींव जी झांझडा से दक्षिण में चलकर सामुदायिक भवन को दायें छोड़ते हुए बुधाराम ढाका को शामिल करते हुए अविनाश कटेवा को शामिल करते हुए दक्षिण में चलते हुए नगरपालिका सीमा से पूर्व में मुडकर नगरपालिका सीमा के सहारे सहारे देराजसर सडक पर उत्तर में चलकर शंकरलाल प्रजापत के माकन को शामिल करते हुए पश्चिम में मुडकर श्रवण कुमार मंडार के मकान को शामिल करते हुए, याकुब अली के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण में मुडकर मकड़ीनाथ स्कूल को शामिल करते हुए, लाल मो० को शामिल करते हुए पश्चिम में मुडकर आगे जाकर मुस्ताक खां, रमेश कुमार नायक, बाबुलाल सीमार को शामिल कर उतर में मुडकर ओम जी सीमार के मकान को दांयी ओर छोड़ते हुए पश्चिम में मुडकर राकेश शर्मा

		को शामिल करते हुए खींव जी झांझडा तक।
20	20	पशु हास्पिटल से दक्षिण में चलते हुए सीधे-सीधे भरतिया कुएं को शामिल करते हुए पूर्व में चलकर ओमप्रकाश प्रजापत को अन्दर लेते हुए चेतन सीमार के मकान को दांये ओर छोड़कर पूर्व में मुड़कर बाबुलाल सीमार को दांये ओर छोड़ते हुए बुधर जी प्रजापत को शामिल करते हुए मुली देवी मेघवाल को शामिल कर भंवरलाल जांगिड़ से उत्तर में मुड़कर गुलाब सांसी व हनुमान जी के मकान को शामिल करते हुए मकड़ीनाथ स्कूल को दांये छोड़ते हुए पश्चिम में मुड़कर गोपाल पेंसिया को दांये छोड़ते हुए पश्चिम में सुलतान खां के मकान को शामिल कर सतार मणियार को दांये छोड़ते हुए उत्तर में मुड़कर याकुब खां, मुमताज अली को शामिल कर पश्चिम में मुड़कर कायमखानी मस्जिद को दांये छोड़ते हुए रफीक मोहम्मद के मकान को शामिल करते हुए उत्तर में मुड़कर भैरूदान चारण को शामिल करते हुए पश्चिम में चलकर नूर मोहम्मद के मकान को दांये छोड़ते हुए युसुफ की दुकान को अन्दर लेकर पशु हास्पिटल तक।
21	21	नजीर खां के मकान से दक्षिण में चलकर रेल्वे घुमचक्कर को शामिल कर युसुफ की दुकान को दांये छोड़कर पूर्व में चलकर सुलेमान खां, नूर मोहम्मद के मकान को शामिल कर दक्षिण में चलकर अयुब खान के मकान को शामिल कर पूर्व में मुड़कर कायमखानी मस्जिद को शामिल कर सीधे-सीधे चलते हुए मुमताज अली के मकान को दांये छोड़ते हुए कालु खां के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण में चलकर सतार मणियार के मकान को शामिल कर पूर्व में मुड़कर सीधे-सीधे चलकर सुलतान खां के मकान को दांये छोड़ते हुए गोपाल जी पेंसिया के मकान को शामिल करते हुए मकड़ीनाथ स्कूल रोड़ को क्रास कर कासम खां के मकान को शामिल कर सीधे पूर्व में चलते हुए देराजसर रोड़ पर शंकरलाल प्रजापत के मकान को दांयीं ओर छोड़कर उत्तर में मुड़कर नागरमल घोड़ेला के मकान को शामिल कर पश्चिम में मुड़कर अंबेडकर भवन व गोगामेड़ी को दांये छोड़ते हुए अर्जून सिंह फ्रांसा को शामिल कर सीधे-सीधे पश्चिम में चलकर मकड़ीनाथ स्कूल रोड़ पर आकर परमेश्वर मेघवाल के मकान को शामिल कर उत्तर में मुड़कर पंप हाउस को अन्दर लेकर दाउद की दुकान को शामिल कर पश्चिम में मुड़कर शिवभगवान प्रजापत के मकान को शामिल कर दक्षिण पश्चिम में चलते हुए गोपाल कृष्ण शर्मा के मकान को शामिल कर वापिस नजीर खां तक।

22	22	रेल्वे चरू फाटक से पश्चिमी-दक्षिण की ओर चलते हुए रेल्वे केबिन व बालाजी मन्दिर को अन्दर लेते हुए रेल्वे क्वार्टरों को अन्दर लेते हुए रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे चलते हुए मेनस यूनियन, रेल्वे क्वार्टरों व मजदूर यूनियन को अन्दर लेते हुए रेल्वे क्लब से पहले रेल्वे के सेम्पवेल पर पहुचकर पूर्व में मुड़कर रेल्वे की दीवार के सहारे-सहारे चलते हुए रेल्वे क्वार्टरों को लेते हुए सीधे घुमचक्कर तक वहां से उत्तर में मुड़कर बृज भूषण एडवोकेट के मकान को अन्दर लेते हुए पूर्व में मुड़कर तेजकरण शर्मा एडवोकेट को अन्दर लेकर उत्तर पूर्व में चलते हुए लालचन्द प्रजापत को अन्दर शामिल करते हुए खेताराम के बाड़े को शामिल करते हुए सालासर रोड़ पर उत्तर की ओर चलते हुए जाट बोर्डिंग को दाहिने छोड़ते हुए सड़क-सड़क रेल्वे चरू फाटक तक।
23	23	रेल्वे चरू फाटक से लेकर दक्षिण में जयपुर रोड़ पर चलकर जाट बोर्डिंग, सराफ कुए को शामिल करते हुए दक्षिण में चलकर दुलीचन्द मेंघवाल के मकान को शामिल करते हुए ओम प्रकाश के मकान को शामिल करते हुए पूर्व में मुड़कर आगे चलते हुए अम्बेडकर भवन को शामिल कर देराजसर रोड़ पर दक्षिण में देराजसर रोड़-रोड़ चलते हुए नगरपालिका सीमा तक वहां से पूर्व में मुड़कर मालीयों की ढाणी को दायीं ओर छोड़ते हुए उत्तर में चलकर गौरिसरिया ढाणी स्कूल को शामिल कर भंवरलाल पूनिया के मकान को दांये छोड़कर उत्तर में चलकर माणकचन्द जोशी के मकान को शामिल करते हुए रेल्वे लाईन से पश्चिम में चलकर रेल्वे फाटक तक।
24	24	नजमा बानो के मकान से दक्षिण में चलते हुए भंवर लाल पूनिया के मकान को शामिल कर पूर्व में मुड़कर चेताराम माली को शामिल करते हुए पूर्व में चलकर गौरिसरिया ढाणी स्कूल को दांयी ओर छोड़ते हुए दक्षिण में मुड़कर मालियो की ढाणी को शामिल करते हुए नगरपालिका सीमा तक उत्तर में मुड़कर नगरपालिका सीमा के सहारे चलते चलते ऋषिकुल आश्रम के रेल्वे गेट तक वहां से रेल्वे लाईन के साथ साथ पश्चिम में चलते हुए बांयी तरफ की आबादी को शामिल करते हुए नजमा बानो तक।
25	25	ज्योती पाठशाला स्कूल से दक्षिण में चलकर मेघवाल सामुदायिक भवन को शामिल कर गौस मोहम्मद के मकान को शामिल कर पूर्व में मुड़कर जगदीश प्रसाद प्रजापत के घर से दक्षिण में मुड़कर राधेश्यामजी के मकान को शामिल कर पूर्व में मुड़कर भटिण्डा पीर दरगाह को शामिल कर पूर्व में चलकर नगरपालिका सीमा के सहारे सहारे उत्तर में नगरपालिका सीमा के

		सहारे सहारे पश्चिम में मुड़कर नगरपालिका सीमा के सहारे सहारे नूर मोहम्मद के मकान को शामिल कर मक्की मस्जिद को शामिल कर पश्चिम में सीधे ज्योती पाठाशाला तक।
26	26	नासर भगत की मेड़ी से पश्चिम में चलकर संत हरिदास स्कूल को शामिल कर पश्चिम में मदरसे को शामिल करते हुए दक्षिण में मुड़कर लादुराम भार्गव के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम में मुड़कर हजारी सिक्का से दारूगरिया चैक से दक्षिण में मुड़कर सुरजमल चोटिया के मकान व नोहरे से पश्चिम में मुड़कर गौरिशंकर चैमाल के मकान से दक्षिण में मुड़कर गीगजी चैक को दांये ओर छोड़कर घनश्याम जी हरीतवाल के मकान को शामिल कर पूर्व में मुड़कर रामदेव जी मन्दिर को अन्दर लेकर मनफूल को शामिल कर उत्तर में मुड़कर ज्योति पाठाशाला को दांयी ओर छोड़ते हुए नासर भगत की मेड़ी तक।
27	27	रोशन खरादी व फजलुदीन लुहार के मकान से दक्षिण मुड़कर नानकराम खाती का मकान, उदय निवास वैध केदार जी शर्मा से पूर्व में चलकर जेठमल चैधरी धर्मशाला से उत्तर की तरफ मुड़कर बाबूलाल खाती के मकान को शामिल करते हुए पूर्व में चलकर भंवरलाल आचार्य के मकान को शामिल कर दक्षिण में मुड़कर असगर अली के मकान को शामिल कर उत्तर में मुड़कर चलते हुए दारूगरिया मस्जिद को शामिल करते हुए पूर्व में मुड़कर संत हरिदास स्कूल को दांयी ओर छोड़ते हुए नासर भगत की मेड़ी को दांयी ओर छोड़ते हुए उत्तर में मुड़कर ओम प्रकाश शर्मा के आवास को अन्दर लेते हुए पश्चिम में मुड़कर नागरमल माली का मकान, जगदीश खाती का कारखाना उमाराम स्वामी के मकान से रामेश्वर सुरोलिया के मकान से दक्षिण में मुड़कर बजरंगलाल गुर्जरगौड़ के मकान को अन्दर लेकर पश्चिम में मुड़कर पन्नालाल गुर्जर गौड़ की आटा चक्की, महेश जी खाती व नारायण मल के मकान से सीधे चलकर वापस रोशन खरादी के मकान तक।
28	28	चैथमल माली के घर से पूर्व में चलकर धोलिया कुंआ शिव हनुमान मन्दिर से लेकर उत्तर में मुड़कर गुमानीराम जी शर्मा के बाड़े से उत्तर में चलकर रूकमानन्द जी के मकान को शामिल कर पश्चिम में चलकर झाबरमल प्रजापत को अन्दर लेकर विरेन्द्र जी रोयल को शामिल कर गीगराज का मन्दिर प्याऊ से मुकनाराम ब्राह्मण के घर के पास से पश्चिम में मुड़कर मानीराम जोशी के मकान को अन्दर लेते हुए बुधाराम प्रजापत के मकान से अन्दर दक्षिण मुड़कर डूंगर सिंह के मकान से लिछमण जाट से पश्चिम दक्षिण मुड़कर विदुर जी का मन्दिर दाहिनी ओर छोड़ते हुए हबीब लुहार के मकान को दांयी ओर छोड़ते हुए दक्षिण में मुड़कर रामदेव जी मन्दिर,

		निजामुद्दीन मणियार को शामिल कर सीताराम गुर्जर के मकान को दायीं ओर छोड़ते हुए कप्तान सिंह की हवेली को शामिल करते हुए मेड़ी से पूर्व में मुड़कर चैथमल माली तक।
29	29	होली धोरा पर धन्नाराम नायक के दक्षिण में मुड़कर पीछे शिवदत्त जी नौहाल, पूर्णाराम दर्जी से पश्चिम मुड़कर भंवरलाल दर्जी से होते हुए सीधे नारायण प्रसाद प्रजापत के नोहरे से दक्षिण मुड़कर लुहार बस्ती को लेते हुए पूर्व मुड़कर प्रजापति भवन दर्जियों की धर्मशाला से सीधे चलते हुए दक्षिण में चलते हुए बाल गोगा मेड़ी को शामिल कर दक्षिण में पुलिया नं. 01 व अण्डर ब्रिज को दायें छोड़ते हुए पूर्व में मुड़कर चूरू रेलवे फाटक को दायीं ओर छोड़ते हुए वापस उत्तर में मुड़कर चैथमल माली के मकान को बांयी ओर छोड़ते हुए पश्चिम में चलकर मेड़ी वाली गली में उत्तर में चलकर मेड़ी को दायीं ओर छोड़ते हुए कप्तान सिंह के घर को दायीं ओर छोड़कर पश्चिम में चलकर सीताराम गुर्जर के मकान को शामिल कर उत्तर में चलकर हबीब लुहार के मकान को शामिल कर पूर्व में मुड़कर शिवभगवान प्रजापत, बाबूलाल बोचीवाल के मकान से विदुर जी मन्दिर को अन्दर लेकर उत्तर मुड़कर सांखला भवन होते हुए ट्रांसफार्मर को अन्दर लेकर फजलुद्दीन के कारखाने को अन्दर लेकर गोपाल प्रजापत, सुलतान खां कायमखानी, सुरजाराम नायक होते हुए धन्नाराम नायक तक।
30	30	मेहन्दीपुर बालाजी धर्मशाला से दक्षिण में चलकर मस्जिद को दांयी ओर छोड़कर सीताराम पोददार की हवेली को अन्दर लेकर पूर्व में मुड़कर सांई बाबा मन्दिर को अन्दर लेकर दक्षिण में मुड़कर निर्मल इन्दौरिया के मकान को अन्दर लेकर विनोद जी एडवोकेट के मकान को शामिल करते हुए धनराज चैधरी के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम मुड़कर सांवरमल चमड़िया को अन्दर लेते हुए दक्षिण में मुड़कर आयुर्वेद रसायनशाला को दाहिनी ओर छोड़ते हुए पश्चिम में मुड़कर सुरेश जी चोटिया के मकान से पश्चिम मुड़कर सीताराम प्रजापत से शीतला चैक से दक्षिण में सत्यनारायण भुढाढरा से पूर्व में मुड़कर हरफूल सिंह जाट को शामिल करते हुए उत्तर में मुड़कर होली धोरा को अन्दर लेते हुए रमेश जी सारस्वत के मकान को अन्दर लेकर पूर्व में मुड़कर नोरंग कुम्हार के मकान से सीधे पूर्णमल कुम्हार के मकान से सीधे पूर्व चलकर आमीन कुरेशी चिमनाराम स्वामी की गोगामेड़ी से होते हुए इस्माईल काजी, लीयाकत अली के मकान से पूर्व चलकर मोटाराम के मकान से उत्तर पूर्व मुड़कर कन्हैयालाल चैमाल,

		रत्नाकर चैमाल को शामिल करते हुए उत्तर में बजरंग जी सांखोलिया से पश्चिम में चलकर कब्रिस्तान कुए को दांये ओर छोड़कर अनील कुमार मिश्रा को अन्दर लेकर बंटी नाथोलिया को शामिल करते हुए भीषम इन्दौरिया को दांयी ओर छोड़ते हुए पश्चिम उत्तर मुड़कर सिनेमा हाल रोड से पश्चिम में चलकर मेहन्दीपुर बालाजी धर्मशाला तक।
31	31	घासीराम परमेश्वरलाल की दुकान से दक्षिण में चलकर बड़ा मन्दिर, तापड़िया हवेली, केसरा मन्दिर को शामिल कर पूर्व में मुड़कर रूथला मन्दिर को शामिल करते हुए प्रेम प्रकाश शर्मा को शामिल करते हुए हिरालाल दायमा को दांये ओर छोड़कर दक्षिण पूर्व में मुड़कर सम्पत राम धई को दाई ओर छोड़कर पूर्व में चलकर फजलुदीन छींपा के मकान से पूर्व दक्षिण में चलते हुए गींदड़ चैक से हुए शितला चैक में चलकर शितला मन्दिर को दांये ओर छोड़ते हुए पूर्व में चलकर टेकचन्द कटारिया को अन्दर लेकर पूर्व में चलकर गोविन्द जी प्रजापत को अन्दर लेकर पूर्व में आयुर्वेद रसायनशाला को अन्दर लेकर उत्तर में चलते हुए विद्याधर पचलंगीया के मकान को अन्दर लेकर उत्तर मुड़कर निर्मल शर्मा को अन्दर लेते हुए पश्चिम चलकर पन्नालाल सराफ हवेली से उत्तर मुड़कर ईदगाह मस्जिद को शामिल कर मेहन्दीपुर बालाजी से पश्चिम मुड़कर घासीराम परमेश्वरलाल की दुकान तक।
32	32	चुन्नीलाल पारीक की दुकान से शुरू होकर दक्षिण में चलकर प्रहलादराय अजीतसरिया की हवेली होते हुए आगे रूकमानन्द खेतान, लक्ष्मीनारायण मास्टर, आँकार जी स्वामी की दुकान, गणेश स्टोर होते हुए घन्टाघर को अन्दर लेकर पूर्व की तरफ मुड़कर सड़क-सड़क चलकर राजकुमार चैधरी की दुकान, गोपाल पुजारी की दुकान, मारवाडी सहायक समिति के डॉक्टर क्वाटर होते हुए नन्दलाल सराफ की दुकान को अन्दर लेकर उत्तर में मुड़कर मेहदीपुर बालाजी धर्मशाला, बर्फिया टाल होते हुए सत्यनारायण भार्गव से पश्चिम मुड़कर डालचन्द सिंधी, जीवराम जाट से होते हुए भगवानाराम कुल्डिया से पश्चिम मुड़कर मंगतुराम नाई के सामने हाजी अलादीन के मकान को अन्दर लेकर आगे मोहनलाल चैपदार, यासीन लीलगर, गुलाब नबी को अन्दर लेते हुए पश्चिम में चलकर सदीक लिलघर को शामिल कर उत्तर में मुड़कर स्वामी धर्मशाला से पश्चिम चलकर चुन्नीलाल पारीक की दुकान तक।
33	33	किशनलाल जी कम्पाउंडर के मकान से दक्षिण में चलते हुए तिलोक जी

		लोहिया के मकान के आगे से भड़ैच कोठी को शामिल करते हुए पूर्व में चूरू सड़क को शामिल करते हुए सूर्य सिनेमा के आगे से परमाणा ताल में ट्रांसफार्मर से उत्तर में सरदारशहर बाईपास रोड़ से मदन जी नाहरीया के नोहरे को दाहिना छोड़ते हुए पश्चिम में चलकर हरिराम बाबा मन्दिर व चेताराम भगत की मेड़ी को शामिल करते हुए हंसराज धर्ड के मकान को लेते हुए पश्चिम में चलकर जेतुन लिलघर के मकान को शामिल करते हुए विनोद नाई के मकान को शामिल कर दक्षिण में घूमते हुए सुरजमल जी महर्षि के मकान को दाहिना छोड़ते हुए शास्त्री चैक होते हुए राणी सती मन्दिर को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा में किशन लाल जी कम्पाउडर के मकान तक।
34	34	लक्ष्मीनारायण वैध के मकान से पश्चिम में चलकर पी.एच.ई.डी. एक्स.ई.एन., सराफों की छतरी, सार्वजनिक कब्रिस्तान को शामिल कर हरितवाल गेट के अन्दर दक्षिण में चलकर पश्चिम में मुड़कर भीषम इन्दौरिया के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण में चलकर बंटी नाथौलिया, अनिल कुमार मिश्रा के मकान को दांयी ओर छोड़ते हुए पूर्व में मुड़कर कब्रिस्तान कुए को शामिल कर पूर्व में चलकर सोकीन लिलघर को शामिल करते हुए दक्षिण में मुड़कर रत्नाकर चेमाल के नोहरे को अन्दर लेकर पूर्व में चलकर श्याम सुन्दर शर्मा के मकान को शामिल कर ओम जी चोक से दक्षिण में चलकर टिकुराम जी प्रजापत को अन्दर लेकर शंकरलाल हरितवाल को शामिल करते हुए पूर्व में चलकर हुए पूर्णमल मंगलहारा के मकान को शामिल कर भानीधोरा टंकी को शामिल कर लक्ष्मीनारायण वैध के मकान तक।
35	35	खीचड़ आटो मोबाइल एण्ड वक्रस से दक्षिण में मुड़कर संतोष तालणिया के मकान को शामिल कर भानी धोरा मन्दिर को अन्दर लेते हुए राधेश्याम मंगलहारा से पश्चिम में चलकर शंकरलाल जी हरितवाल को दांयी ओर छोड़ते हुए दक्षिण में असलम के बाड़े को शामिल करते हुए लाधु खां के मकान को शामिल करते हुए पूर्व में मुड़कर ज्योति पाठशाला को दांयी ओर छोड़ते हुए पूर्व में सीधे चलकर अयूब के मकान को शामिल करते हुए सीधे चलकर सुब्राहती के मकान को शामिल करते हुए नगरपालिका सीमा तक उत्तर में मुड़कर नगरपालिका सीमा के सहारे-सहारे चूरू रोड पर पहुँचकर पूर्व में चलकर दयालू हनुमान मंदिर को अन्दर लेकर आगे नोरंग चेला के मकान व लोहिया कालेज को अन्दर लेकर पिंजरापोल गौशाला को अन्दर

		लेते हुए खीचड़ आटो मोबाइल एण्ड वक्रस तक।
36	36	कुन्दनमल बबेरवाल के मकान से दक्षिण में चलते हुए प्रजापती धर्मशाला को अन्दर लेते हुए पश्चिम में चलकर दक्षिण में मुड़कर रामप्रकाश पीपलवा के नोहरे को शामिल करते हुए मंागीलाल तामड़ायत की दुकान को दांयी ओर छोड़ते हुए पूर्व में मुड़कर भूतनाथ शिवालय मन्दिर को शामिल कर हरिराम बाबा मन्दिर को दांयी ओर छोड़कर सरदारशहर बाईपास से दक्षिण में चलकर चूरू रोड़ पर पहुंचकर पूर्व मुड़कर बायें तरफ पिंजरापोल गौशाला को अन्दर लेकर चूरू रोड़ पर पालिका सीमा तक वहां से उत्तर मुड़कर पालिका सीमा को अन्दर लेते हुए जालेउ के कच्चे रास्ते से पश्चिम मुड़कर रास्ते रास्ते मालीराम भुढाढरा का कुआ, समाधी स्थल को अन्दर लेते हुए समाज कल्याण छात्रावास को दायें छोड़ते हुए सरदारशहर बाईपास रोड़ पर पश्चिम की तरफ सुनिल तामड़ायत के बाड़े, शनि मन्दिर को अन्दर लेते हुए सोहन लाल गोयनका को अन्दर लेकर गोपीराम गोयनका को दायें छोड़कर दक्षिण मुड़कर पवन कुमार गौरिसरिया को अन्दर लेते हुए पश्चिम में चलकर कुन्दनमल बबेरवाल तक।
37	37	शांती देवी के मकान से पश्चिम में चलकर इमामुदीन के मकान को अन्दर लेकर दक्षिण में मुड़कर रोशन लीलगर, अंजीर इलाही को अन्दर लेकर पश्चिम दक्षिण में मुड़कर इमरान तेली के मकान को अन्दर लेकर जाफर काजी के मकान को दांयी ओर छोड़ते हुए पश्चिम में चलकर मदरसा को शामिल करते हुए दक्षिण में मुड़कर कुलडिया के नोहरे मंगतु तेली, सोहन ढाढी के घर को अन्दर लेकर पूर्व में मुड़कर छतुराम जाट से शिवभगवान तामड़ायत के मन्दिर से पूर्व सुखलाल महर्षि के मकान से उत्तर में मुड़कर राजकुमार चोटिया की दुकान को अन्दर लेकर पूर्व में सीधे चलकर मांगीलाल तामड़ायत की दुकान से उत्तर चलकर पवन जी शार्मा को अन्दर लेते हुए पूर्व में मुड़कर परमेश्वर लाल मेघवाल के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम में मुड़कर गीता जनरल स्टोर, बाबुलाल सोडा, सोडा बास मेड़ी को अन्दर लेते हुए शौकत अली लीलगर के मकान को शामिल कर उत्तर में मुड़कर शिवशंकर कम्मा के मकान को शामिल कर शांती देवी के मकान तक।
38	38	वैद्य धनाधीश जी गोस्वामी के मकान से पूर्व में चलकर स्वामी समाज धर्मशाला को दांयी ओर छोड़कर दक्षिण में मुड़कर हुसैन लिलघर को अन्दर लेते हुए पूर्व में चलकर असगर सब्जी फिरोज को शामिल करते हुए दक्षिण

		<p>में मुड़कर जाफर मणियार व सफी मो० बाडे को अन्दर लेकर पूर्व मुड़कर अबरार हुसैन तेली के मकान को अन्दर लेकर उत्तर मुड़कर इमामुदीन तेली को अन्दर लेकर उत्तर पूर्व में मुड़कर तेलीयान मस्जिद को अन्दर लेकर इमरान तेली के मकान को दांयी ओर छोड़कर उत्तर में मुड़कर जाफर काजी के मकान को अन्दर लेकर पूर्व उत्तर में मुड़कर दीपचन्द सोनी के मकान को अन्दर लेते हुए पूर्व में मुड़कर तेलीयान धर्मशाला को शामिल करते हुए अनिल कुमार पंवार को शामिल करते हुए उत्तर में मुड़कर इमामुदीन तेली को दांये ओर छोड़ते हुए पश्चिम में मुड़कर रिणी गोगा मेड़ी को अन्दर लेकर पश्चिम में रूपजी चाकलान को अन्दर लेकर उत्तर में सी.सी. रोड़ होते हुए राम कुमार शर्मा कारखाना, ट्रांसफार्मर को दांयी ओर छोड़ते हुए पश्चिम में मुड़कर सीधे वैद्य धनाधीश जी गोस्वामी के मकान तक।</p>
39	39	<p>रिणी वाली धर्मशाला, शिवभगवान जोशी, हरिशचन्द्र पारीक, आदूराम माली, छत्रराम सारस्वत व कैलाश चन्द के मकान को अन्दर लेकर दक्षिण में मुड़कर इमामुदीन तेली से अहमद तगाला को अन्दर लेकर पूर्व मुड़कर इमामुदीन मकान व दुकान को अन्दर लेकर अणतुराम गुजरगौड़ की दुकान को अन्दर लेकर मामदीन निर्वाण को अन्दर लेकर पश्चिम में मुड़कर सदीक निर्वाण को अन्दर लेकर हरिराम बाबा मन्दिर को दांयी ओर छोड़ते हुए कन्हैयालाल सोनी को शामिल कर पश्चिम में चलकर मुमताज बिसायती को दाहिना छोड़कर कर बिसायती धर्मशाला को शामिल कर दक्षिण में मुड़कर रूकमानन्द सोनी के मकान को शामिल कर पश्चिम में मुड़कर रामकुमार के कारखाने को दाई ओर छोड़कर दक्षिण में सी.सी. रोड़ पर मुड़कर पी.एच.ई.डी. को शामिल कर रूप जी चाकलान को दांयी ओर छोड़कर पूर्व में रिणी वाली धर्मशाला तक।</p>
40	40	<p>अनवर हुसैन तेली के नोहरे तथा सलीम दुंगा के मकान से दक्षिण में चलकर चैखाराम हरिजन, लालचन्द हरिजन, मोहन लाल मेघवाल को अन्दर लेकर पूर्व मुड़कर सोडा बास गोगा मेड़ी को दांये ओर छोड़ते हुए, पांचाराम मेव को अन्दर लेकर सुखाराम कड़ेला से होते हुए प्रहलाद भार्गव से उत्तर मुड़कर राज. उच्च. प्रा. वि. व वालमीकि मन्दिर को शामिल करते हुए पश्चिम में चलकर वालमीकि धर्मशाला को अन्दर लेकर भगवती प्रसाद पंवार को शामिल करते हुए उत्तर में मुड़कर महेन्द्र कुमार, दिलीप जमादार को शामिल करते हुए विष्णु पंवार, गोगराज पंवार को दांयी ओर छोड़ते हुए पूर्व में मुड़कर अहमद अली खां को शामिल कर उत्तर में लाल खां को अन्दर</p>

		लेते हुए पश्चिम में अनवर हुसैन तेली के नोहरे तक।
41	41	अलादीन खां के नोहरे से (सरदारशहर बाईपास ट्यूबवेल) से दक्षिण में चलकर अकबर के मकान को अन्दर लेकर पूर्व में चलकर मकसुद खां को अन्दर लेते हुए दक्षिण में मुड़कर एम.डी. खां के मकान के मकान को शामिल करते हुए रहमत खां से पश्चिम में गोगाराम मेघवाल से दक्षिण में चलकर विष्णु पंवार को शामिल करते हुए राजेश ठेंठवाल से पूर्व में मुड़कर जगदीश पंवार के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण में मुड़कर दांयी ओर बापू नगर स्कूल को छोड़ते हुए सीधे चलकर ओमप्रकाश भार्गव के मकान को शामिल कर पोददारों का कुआं, गोरधन शर्मा को अन्दर लेकर पश्चिम मुड़कर गोपीराम जी गोयनका के घर को अन्दर लेकर पूर्व मुड़कर सीताराम प्रजापत, महावीर प्रसाद भार्गव को अन्दर लेकर शनि मन्दिर को दांये ओर छोड़कर सरदारशहर बाईपास से उत्तर मुड़कर सड़क-सड़क चलते हुए अलादीन खां के नोहरे तक।
42	42	शिवबाड़ी मन्दिर से दक्षिण पूर्व में चलते हुए सरदारशहर सड़क के सहारे सहारे समाज कल्याण छात्रावास को शामिल कर उत्तर पूर्व मुड़कर सुनारों के कुएं को शामिल कर गुसाईं मन्दिर को दांयी ओर छोड़ते हुए जालेउ के कच्चे रास्ते पालिका सीमा के सहारे सहारे उत्तर में चलकर पश्चिम व दक्षिण में चलकर शिवबाड़ी मन्दिर तक।
43	43	शिव गोगामेड़ी के पश्चिम में चलकर होलिका दहन को दांये छोड़ते हुए नरेन्द्र प्रजापत के मकान को अन्दर लेते हुए दक्षिण में चलते हुए भींवारा माली को अन्दर लेते हुए सांवरमल माली के मकान को दांयी ओर छोड़ते हुए रफीक बिसायती को शामिल कर पश्चिम में चलकर गंगाधर शर्मा को छोड़ते हुए दक्षिण में मुड़कर अजीतसरिया कुए को शामिल कर पूर्व में मुड़कर कन्हैयालाल शर्मा, शंकर जी माली, गिरधारीलाल शर्मा से दक्षिण मुड़कर श्याम जी के नोहरे को दांये ओर छोड़ते हुए श्रवण जी सैनी को शामिल कर सीताराम की चक्की को दांये और छोड़ते हुए पूर्व में चलकर मुमताज बिसायती से दक्षिण पूर्व मुड़कर हरिराम बाबा मन्दिर को अन्दर लेकर पिरू तैली को शामिल करके पूर्व में चलते हुए जारू चक्की को अन्दर लेते हुए उसमान खान से उत्तर में चलकर मदिना मस्जिद को अन्दर लेते हुए सरदारशहर बाईपास रोड़ से पश्चिम में शिव गोगा मेड़ी तक।
44	44	खेमका पार्क से दक्षिण में चलकर साधो का कुआ लीलाधर महर्षि का मकान होते हुए माणकचन्द दुगड़ के नोहरे को अन्दर लेकर पूर्व मुड़कर खेमका कुआं, हुलास जी महर्षि के मकान को अन्दर लेकर आगे चलकर ट्रांसफार्मर

		<p>व रामकुमार शर्मा के कारखाना को शामिल करते हुए उत्तर में मुड़कर रुकमानन्द सोनी के मकान को दाहिना छोड़ते हुए उत्तर में चलकर भैरू जी मन्दिर फकरुदीन के मकान को शामिल कर पूर्व में मुड़कर बिसायती धर्मशाला को दाहिनी ओर छोड़ते हुए सीताराम सैनी की चक्की से उत्तर में मुड़कर श्याम जी महर्षि के बाड़े को अन्दर लेकर दक्षिण में चलकर राधेश्याम माली, भानु इन्दौरिया को अन्दर लेकर उत्तर में चलकर अजीतसरिया कुआं को दाहिना छोड़ते हुए पश्चिम में चलकर गायत्री स्कूल को दायीं ओर छोड़ कर उत्तर में मुड़कर पंडितपुर गोगामेड़ी को शामिल कर उत्तर में चलकर इन्द्र जी माली की चक्की को शामिल कर पश्चिम में मुड़कर सीधे चलकर मनोहर सिंह के मकान को अन्दर लेकर रमाकान्त नाई के मकान से दक्षिण मुड़कर सीधे चलकर बुधमल सारस्वत को शामिल कर पश्चिम में खेमका पार्क तक।</p>
45	45	<p>सीताराम खटिक से दक्षिण चलकर शिवभगवान गाड़गील से पूर्व में मुड़कर बनवारी लाल रेगर को शामिल कर काली माता मन्दिर को दांये ओर छोड़ते हुए भवंर लाल/बालुराम को अन्दर लेकर उत्तर में मुड़कर हुडेरा सड़क को क्रॉस कर प्रकाश पाठशाला को अन्दर लेकर उत्तर में मुड़कर काली माता मन्दिर से पूर्व में मुड़कर जगदीश प्रसाद तोसावड़ा, केशरा खटीक, परमेश्वर नाई को अन्दर लेकर उत्तर पूर्व में सोहनलाल सांखोलिया को अन्दर लेते हुए बुधमल सारस्वत को दांये ओर छोड़कर उत्तर में मुड़कर रमाकान्त नाई को दायीं ओर छोड़ते हुए पूर्व में चलकर लक्ष्मण माली को अन्दर लेकर दक्षिण पूर्व चलते हुए धनराज माली को अन्दर लेकर दक्षिण में चलकर गायत्री स्कूल को शामिल करके उत्तर में मुड़कर गंगाधर शर्मा को अन्दर लेकर पूर्व में चलकर मुंशीराम गौड़ को अन्दर लेकर उत्तर में मुड़कर सांवरमल माली को शामिल कर नगरपालिका सीमा तक पश्चिम में मुड़कर नगरपालिका सीमा सहारे-सहारे दक्षिण हुडेरा रोड़ होते हुए सीताराम खटीक तक।</p>

अधिशायी अधिकारी

नगरपालिका रतनगढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।